

## **शपथ-पत्र मय घोषणा-पत्र**

(नया भारत पार्टी को प्रस्तुत करने के लिए)

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/श्रीमती .....  
उम्र..... वर्ष, निवासी- .....(पूर्ण पता),  
तहसील- ..... जिला- ..... राज्य- ..... सशपथ निम्न सत्य  
कथन करता / करती हूँ -

1. कि मैं 'नया भारत पार्टी' का/की सक्रिय सदस्य हूँ.
2. कि मेरे खिलाफ भारत के किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई गंभीर अपराधिक मुकदमा दर्ज व लंबित नहीं है / .....धाराओं के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज व लंबित है.
3. कि मैं 'नया भारत पार्टी' के उम्मीदवार के रूप में ..... (राज्य) के विधान-सभा चुनाव के लिए ..... विधान-सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता / चाहती हूँ जिसके लिए मेने 'नया भारत पार्टी' से टिकट एवं चुनाव चिन्ह हेतु निवेदन किया है.
4. कि यदि मुझे 'नया भारत पार्टी' से ..... विधान-सभा क्षेत्र के लिए टिकट एवं चुनाव चिन्ह दिया जाता है तो मैं हर-हालत में वह चुनाव लड़ूंगा / लड़ूंगी और किसी भी हालत में अपना चुनाव आवेदन (Nomination) बिना पार्टी की लिखित आदेश / सहमति के वापिस नहीं लूंगा / लूंगी लेकिन यदि बिना पार्टी की लिखित सहमति अथवा आदेश के अपना चुनाव आवेदन (Nomination) वापिस लेता / लेती हूँ तो इसे पार्टी के विरुद्ध भारतीय अपराध कानूनों के अनुसार अपराधिक कृत्य माना जावे.

लगातार.....पृष्ठ संख्या-2

5. कि यदि मुझे 'नया भारत पार्टी' से टिकट एवं चुनाव चिन्ह दिया जाता है तो मैं हर-हालत में अंत तक अपने पूर्ण सामर्थ्य से तथा पार्टी के प्रति पूर्ण वफादारी (Loyalty) के साथ पूरा चुनाव लड़ूंगा / लड़ूंगी और किसी भी हालत में बिना पार्टी की लिखित सहमति अथवा आदेश के चुनावी मैदान को बीच में नहीं छोड़ूंगा / छोड़ूंगी लेकिन यदि बिना पार्टी की लिखित सहमति अथवा आदेश के चुनावी मैदान को बीच में छोड़ता / छोड़ती हूँ और पूर्ण इमानदारी से चुनाव नहीं लड़ता / लड़ती हूँ तो इसे पार्टी के विरुद्ध भारतीय अपराध कानूनों के अनुसार अपराधिक कृत्य माना जावे.

6. कि यदि मैं 'नया भारत पार्टी' से टिकट एवं चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव जीत जाता / जाती हूँ तो मैं ..... विधान-सभा में मेरे पूरे कार्यकाल तक पार्टी के साथ पूर्ण रूप से वफादार (Loyal) रहूँगा / रहूँगी तथा हर हालत व हर गतिविधि में पार्टी के साथ रहूँगा / रहूँगी लेकिन पार्टी के विचार, नीति, सिद्धांतों, निर्देशों व पार्टी नेतृत्व से किसी भी तरह का मेरा विरोध होने के कारण, यदि मैं पार्टी छोड़ता / छोड़ती हूँ तथा पार्टी सदस्यता को त्यागता / त्यागती हूँ तो मैं पहले विधान-सभा की सदस्यता को त्याग दूँगा / दूँगी तथा किसी भी हालत में दल-बदल करता / करती हूँ तो पहले विधान-सभा की सदस्यता को त्याग दूँगा / दूँगी उसके बाद ही, मैं पार्टी छोड़ूंगा / छोड़ूंगी तथा पार्टी सदस्यता को त्याग दूँगा / दूँगी. इस तरह से यदि मैं पार्टी का वफादार नहीं बना रहता हूँ या दल-बदल करता हूँ, तो मेरी विधान सभा की सदस्यता (विधायकी) को स्वतः समाप्त मानी जावे तथा इसे पार्टी के विरुद्ध भारतीय अपराध कानूनों के अनुसार अपराधिक कृत्य माना जावे.

7. कि मुझे ज्ञात है कि इस शपथपत्र-मय-घोषणा-पत्र को देने व पालन करने के वाडे के कारण ही व शपथपत्र-मय-घोषणा-पत्र के रूप में प्रतिफल के बदले में ही मुझे 'नया भारत पार्टी' से ..... विधान-सभा क्षेत्र के लिए टिकट एवं चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, अतः इस शपथपत्र-मय-घोषणा-पत्र व इसमें किये गए वादों को टिकट एवं चुनाव चिन्ह के लिए प्रतिफल माना जावे तथा वादा खिलाफी को पार्टी के विरुद्ध भारतीय अपराध कानूनों के अनुसार अपराधिक कृत्य माना जावे.

स्थान : .....

दिनांक: .....

.....  
शपथग्रिहता व घोषणाकर्ता

### सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....  
अपनी स्वेच्छा से दबाव मुक्त रहते हुए सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र मय घोषणा-पत्र में उपरवर्णित सभी तथ्य, वादे व घोषणाए सही व सत्य हैं जिनसे मैं बाध्य रहूँगा तथा मेने इस शपथ-पत्र मय घोषणा-पत्र से कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है.

.....  
शपथग्रिहता व घोषणाकर्ता